

पाठ - 7

नमाज़ से सम्बन्धित कुछ अहकाम

الدرس السابع - هندي

واجبات و أركان الصلاة

जो बातें नमाज़ में वाजिब हैं

1. तकबीर तहरीमा के सिवा अन्य तमाम तकबीरें,
2. रुकूआ में एक बार “सुबहान रब्बियल अज्ञीम पढ़ना।
3. रुकूआ से सिर उठाते समय इमाम का ‘समीअल्लाहु लिमन हमिदह कहना। अकेले पढ़ रहा हो तो उसे भी कहना होगा।
4. रुकूआ से सिर उठाने के बाद ‘रब्बना व लकल हम्द, पढ़ना
5. सजदा में एक बार ‘सुबहान रब्बियल आला पढ़ना
6. दोनों सजदों के बीच रब्बिग़ फिरली कहना।
7. पहला तशह्हुد पढ़ना 8. तशह्हुद के लिए बैठना।

नमाज़ के अरकान

1. फर्ज नमाज़ों में ताक़त हो तो खड़ा होना, नफिल नमाज़ों में खड़ा होना वाजिब नहीं है, अलबत्ता बैठकर नमाज़ पढ़ने वाले को खड़ा होकर नमाज़ पढ़ने वाले की तुलना में आधा सवाब हासिल होगा,
2. तकबीर तहरीमा
3. हर रकअत में सूरह फ़ातिहा की तिलावत करना,
4. हर रकअत में रुकूआ करना,
5. रुकूआ से उठने के बाद सिधा खड़ा होना,
6. हर रकअत में दो बार सातों हड्डियों पर सजदा करना,
7. दोनों सजदों के बीच बैठना,
8. नमाज़ पढ़ते वक्त सुकून और इत्मिनान का ख्याल रखना,
9. आखिरी तशह्हुद, 10. आखिरी तशह्हुद के लिए बैठना,
11. नबी سल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना,
12. सलाम फेरना,
13. नमाज़ के अरकान के बीच तर्तीب का ख्याल रखना।